



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी  
प्रेस नोट

दिनांक-27.06.2022

थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा चोरी के माल के साथ वांछित  
अभियुक्त विकास जायसवाल व आलोक गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में एवं श्रीमान् सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ के पर्यवेक्षण में थाना सारनाथ पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0-226/2022 धारा 457/380/411/413 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्तगण 1-विकास जायसवाल पुत्र वासदेव जायसवाल नि0-21/20 A-1 रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ वाराणसी 2-आलोक पुत्र वासदेव जायसवाल नि0-21/20 A-1 रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ वाराणसी को रूपनपुर से दिनांक-26.06.22 को समय 21.30 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त के सम्बन्ध में थाना सारनाथ पुलिस द्वारा आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का विवरण-

दिनांक-17.06.2022 को वादी श्री मुसाफिर गुप्ता पुत्र स्व0 सुमेर गुप्ता नि0-सा0 21/18 K-L रूपनपुर नटुई सारनाथ वाराणसी ने दिनांक-10.06.2021 को अज्ञात चोरो द्वारा घर घुसकर इनवर्टर, एप्पल आई पैड, आइरन बार्स, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक मोटर व अन्य सामान चोरी कर लेने के संबंध में लिखित तहरीर दिया, जिसके आधार पर थाना सारनाथ में मु0अ0सं0-226/2022 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत किया गया, जिसकी विवेचना उ0नि0 राजेश कुमार यादव द्वारा संपादित की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1-विकास जायसवाल पुत्र वासदेव जायसवाल नि0-21/20 A-1 रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ वाराणसी, उम्र करीब 24 वर्ष।

2-आलोक पुत्र वासदेव जायसवाल नि0-21/20 A-1 रूपनपुर नटुई थाना सारनाथ वाराणसी, उम्र करीब 19 वर्ष।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्त विकास जायसवाल व आलोक ने बताया कि हमलोग कबाड़ की दुकान चलाते हैं, जिसमें चोरी का सामान भी खरीदते-बेचते हैं। दिनांक-10.06.2022 को रूपनपुर नटुई में मुसाफिर गुप्ता के घर में दिवाल फांद कर, घर में घुसकर, ताला तोड़कर हम लोगो के द्वारा ही होण्डा जनरेटर, टेबल फैन व अन्य सामान चोरी कर लिया गया था। चोरी का इनवर्टर, एप्पल आई-पैड, स्टेबलाईज़र, इलेक्ट्रिक मोटर, सिलिंग फैन, लैपटॉप आदि सामान हमने चलते फिरते आदमियों को बेच दिया है और बिक्री का पैसा खर्च हो चुका है। हमारे पास मात्र होण्डा जनरेटर व टेबल फैन ही बचा है जो बेचने हेतु घर में रखा था, जिसे आप लोगो ने आज बरामद कर लिया है।

बरामदगी का विवरण- 01 अदद टेबल फैन व 01 अदद जनरेटर बरामद।

### गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 राजेश कुमार यादव थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.हे0का0 अरसद खान थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.रि0का0 महेन्द्र कुमार थाना सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल  
पुलिस उपायुक्त  
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी

